

# Psa

## Chapter 96

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
שִׁירֹו לַיהוָה שִׁיר קָדָשׁ שִׁירֹו לַיהוָה כָּל-הָאָרֶץ:  
गाओ नया गीत गाओ के-लिए-यहोवा सारी-पृथ्वी  
[H7891](#) [H3068](#) [H2319](#) [H7891](#) [H3068](#) [H0776](#)

उन नये कामों के लिये जिन्हें यहोवा ने किया है नया गीत गाओ। अरे ओ समूचे जगत यहोवा के लिये गीत गा।

2  
שִׁירֹו לַיהוָה בְּרָכוּ דְחָנְךָ שְׁמוֹ בְּשֵׁרוֹ מְיוֹם-לְיוֹם יְשׁוּעָתְךָ:  
गाओ के-लिए-यहोवा धन्य-करो उसके-नाम-को सुसमाचार-दो दिन-से-उसकी-मुक्ति-का  
[H7891](#) [H3068](#) [H1288](#) [H8034](#) [H1319](#) [H3117](#) [H3117](#) [H3444](#)

यहोवा के लिये गाओ! उसके नाम को धन्य कहो! उसके सुसमाचार को सुनाओ! उन अद्भुत बातों का बखान करो जिन्हें परमेश्वर ने किया है।

3  
סִפְרוּ בְּגוֹיִם כְּבוֹדֹו בְּכָל-הָעַמִּים נִפְלְאוֹתָיו:  
वर्णन-करो में-जातियों उसकी-महिमा-का में-सब-जातियों उसके-आश्चर्यों-का  
[H3519](#) [H3605](#) [H6381](#)

अन्य लोगों को बताओ कि परमेश्वर सचमुच ही अद्भुत है। सब कहीं के लोगों में उन अद्भुत बातों का जिन्हें परमेश्वर करता है बखान करो।

4  
כִּי גָדָל יְהוָה וּמְהֻלָּל אֱלֹהֵימָּו בְּרָחוֹב יְהוָה וּמְהֻלָּל אֱלֹהֵימָּו:  
क्योंकि बड़ा यहोवा और-स्तुति-योग्य महानुभावा बहुत भयावना वह सब-पर-सब-एलोहीम  
[H3068](#) [H3966](#) [H3372](#) [H1931](#) [H3605](#) [H0430](#)

यहोवा महान है और प्रशंसा योग्य है। वह किसी भी अधिक “देवताओं” से डरने योग्य है।

5  
כִּי כָּל-אֱלֹהֵי הָעַמִּים יָרְאוּ לַיהוָה שָׁמַיִם עָשָׂה:  
क्योंकि सब-एलोहे जातियों-के मूर्तियाँ परंतु-यहोवा स्वर्ग बनाया  
[H3605](#) [H0430](#) [H0457](#) [H3068](#) [H8064](#)

अन्य जातियों के सभी “देवता” केवल मूर्तियाँ हैं, किन्तु यहोवा ने आकाशों को बनाया।

6  
הוֹדָה-גּוֹרֵם וְהַדָּר אֶת-פְּנֵי עֹז וְהַדָּר אֶת-פְּנֵי עֹז:  
गौरव-और-तेज और-सौंदर्य शक्ति उसके-सामने उसके-पवित्र-स्थान-में  
[H1935](#) [H1926](#) [H6440](#) [H5797](#) [H8597](#) [H4720](#)

उसके सम्मुख सुन्दर महिमा दीप्त है। परमेश्वर के पवित्र मन्दिर सामर्थ्य और सौन्दर्य हैं।

7  
הָבוּ דֹו לַיהוָה מִשְׁפָּחוֹת עַמִּים הָבוּ דֹו לַיהוָה כְּבוֹד וְעֹז:  
दो के-लिए-यहोवा कुलों जातियों-के दो महिमा और-शक्ति  
[H3051](#) [H3068](#) [H4940](#) [H3051](#) [H3068](#) [H5797](#)

अरे! ओ वंशों, और हे जातियों यहोवा के लिये महिमा और प्रशंसा के गीत गाओ।

8  
הָבוּ דֹו לַיהוָה מִשְׁפָּחוֹת עַמִּים הָבוּ דֹו לַיהוָה כְּבוֹד וְעֹז:  
दो के-लिए-यहोवा कुलों जातियों-के दो महिमा और-शक्ति  
[H3051](#) [H3068](#) [H4940](#) [H3051](#) [H3068](#) [H5797](#)

यहोवा के नाम के गुणगान करो। अपनी भेटे उठाओ और मन्दिर में जाओ।

9  
הָשִׁיבוּ דַּחְבְּנוֹ לַיהוָה בְּהַדָּרָתִי שְׁמִי קָדָשׁ קָדָשׁ הָבוּ דֹו לַיהוָה כְּבוֹד וְעֹז:  
दण्डवत-करो के-लिए-यहोवा में-सौंदर्य-महिमा पवित्रता-की काँपो उसके-सामने-से सारी-पृथ्वी  
[H7812](#) [H3068](#) [H1927](#) [H6944](#) [H3068](#) [H0776](#) [H3065](#) [H6440](#)

यहोवा का उसके भव्य, मन्दिर में उपासना करो। अरे ओ पृथ्वी के मनुष्यों, यहोवा की उपासना करो।

עַמִּים	יָרִין	תִּמְנֹט	בִּלְ-	תִּבְל	תִּבְוֹן	אֶה-	מְלִךְ	יְהוּה	אֲבוֹתָם	אֲמָרוּ	10
जातियों-का	वह-न्याय-करेगा	हिलेगा	नहीं-	संसार	स्थिर-है	हॉ-	राज्य-करता-है	यहोवा	में-जातियों	कहो	
	<a href="#">H1777</a>	<a href="#">H4131</a>	<a href="#">H1077</a>	<a href="#">H8398</a>		<a href="#">H0637</a>		<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H0559</a>	

בְּמִשְׁפָּרִים:  
न्याय-से  
[H4339](#)

राष्ट्रों को बता दो कि यहोवा राजा है! सो इससे जगत का नाश नहीं होगा। यहोवा मनुष्यों पर न्याय से शासन करेगा।

וּמְלֵאָי:	הָיִים	יָרַעַם	הָאָרֶץ	וְתִגְל	הַשָּׁמַיִם	יִשְׁמְחוּ	11
और-उसकी-परिपूर्णता	समुद्र	गरजे	पृथ्वी	और-मगन-करे	स्वर्ग	आनंदित-हों	
<a href="#">H4393</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H7481</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1523</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H8055</a>	

अरे आकाश, प्रसन्न हो! हे धरती, आनन्द मना! हे सागर, और उसमें कि सब वस्तुओं आनन्द से ललकारो।

יַעַר:	עֲצֵי-	כָּל-	יִרְנְנוּ	אָז	בּוֹ	אֲשֶׁר-	וְכָל-	שָׂדֵי	יַעֲלִזוּ	12
वन-के	पेड़-	सब-	जयजयकार-करेंगे	तब	उस-में	जो-	और-सब-	मैदान	आनंदित-हो	
	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3605</a>					<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5937</a>	

अरे ओ खेतों और उसमें उगने वाली हर वस्तु आनन्दित हो जाओ! हे वन के वृक्षों गाओ और आनन्द मनाओ!

יִשְׁפֹּט-	הָאָרֶץ	לְשֹׁפֵט	בָּא	כִּי	בָּא	כִּי	יְהוּה	לְפָנָי	13
वह-न्याय-करेगा-	पृथ्वी-का	न्याय-करने-के-लिए	वह-आता-है	क्योंकि	वह-आता-है	क्योंकि	यहोवा	के-सामने	
<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H8199</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	

בְּאִמּוֹנָתָו:  
उसकी-सच्चाई-से  
[H0530](#)

אֲוֵרָם  
और-जातियों-का

בְּצִדְקָה  
धार्मिकता-से  
[H6664](#)

תִּבְל  
संसार-का  
[H8398](#)

आनन्दित हो जाओ क्योंकि यहोवा आ रहा है, यहोवा जगत का शासन (न्याय) करने आ रहा है, वह खरेपन से न्याय करेगा।